

10

7/10

रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. DL(N)-04/0007/2003-05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 14—नवम्बर 20, 2004 शनिवार/कार्तिक 23—कार्तिक 29, 1926
No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 14—NOVEMBER 20, 2004 SATURDAY/KARTIKA 23—KARTIKA 29, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2004

का.नि. आ. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में वैज्ञानिक सहायक III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना (वैज्ञानिक सहायक III) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वैज्ञानिक सहायक III	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय अराजपत्रित, अनौद्योगिक	5000-150-8000 रु.	अचयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(11)		(12)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : 4500-7000 रु. वेतनमान के ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता।

1. निदेशक (कार्मिक सिविलियन), वायु सेना मुख्यालय —अध्यक्ष
2. विशेषज्ञ निदेशालय का प्रतिनिधि जो स्क्वॉड्रन लीडर या समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और स्थापन से असंबद्ध हो —सदस्य
3. सहायक निदेशक कार्मिक (सिविलियन) (विभागीय प्रोन्नति समिति, अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय —सदस्य

[फा. सं. वा.से.मु./23049/एस ए III/आर आर/पी सी-3/824/रक्षा(नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम रक्षा मंत्रालय की का.निं.आ. 382, तारीख 16 नवम्बर, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th October, 2004

S.R.O. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant Recruitment Rules, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant-III in the Indian Air Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Air Force (Scientific Assistant-III) Group 'C' post Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Scientific Assistant III	*2 (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted, Non-Industrial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Two years
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
By promotion		Promotion : Laboratory Assistant in the pay scale of Rs. 4500—7000 with three years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee :—		Not applicable.			
1. Director (Personnel Civilian), Air Headquarters. —Chairman					
2. Representative of Specialist Directorate not below the rank of Squadron Leader or equivalent and unconnected with the establishment —Member					

13

3. Assistant Director Personnel (Civilian) (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters—Member

[File No. Air HQ/23049/SA-III/RR/PC-3/824/D(Apptts.)]

R.B. JOSHI, Under Secy.

Note : The Principal Rules were published in Part II Section 4 of Gazette of India, Ministry of Defence vide S.R.O. 382 dated 16 November, 1987.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2004

का.नि. आ. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र से भिन्न स्टेशनों पर गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में कार्यरत सिविलियनों के लिए निवास स्थान के आवंटन के लिए नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र से भिन्न स्टेशनों पर गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय स्थापनों में कार्यरत सिविलियनों के लिए निवास स्थान के आवंटन के लिए (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र से भिन्न स्टेशनों पर गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में कार्यरत सिविलियनों के लिए निवास स्थान के आवंटन के लिए नियम, 1996 के नियम 1 के उपनियम (1) में 'दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र से भिन्न स्टेशनों पर' शब्दों का लोप किया जाएगा।

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.नि.आ. 1(अ), तारीख 2 फरवरी, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात् उनका संशोधन (1) का.नि.आ. 90, तारीख 22-4-2000, (2) का.नि.आ. 67, तारीख 29-3-2001, (3) का.नि.आ. 31, तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किए गए।

[फाइल सं. 81397/डी.जी.क्यू.ए./एडीएम/आरएमडी(सीडब्ल्यू)/1237/04/डी(क्यूए)]

डा. परविन्दर कौर, उप सचिव

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 29th October, 2004

S.R.O. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Residential Accommodation to Civilians Serving in Directorate General of Quality Assurance Establishments at Stations other than Delhi and New Delhi Area Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Residential Accommodation to Civilians Serving in Directorate General of Quality Assurance Establishments at Stations other than Delhi and New Delhi Area (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Residential Accommodation to Civilians Serving in Directorate General of Quality Assurance Establishments at Stations other than Delhi and New Delhi Area Rules, 1996 in Sub-rule (1) of rule 1, the words 'Establishment at Stations other than Delhi and New Delhi Area' shall be omitted.

[F. No. 81397/DGQA/ADM/RMD(CW)/1237/04/D(QA)]

Dr. PARVINDER KAUR, Dy. Secy.

Footnote : The principal rules were published vide number S.R.O. 1(E), dated the 2nd February, 1996 and subsequently amended vide, (1) S.R.O. 90, dated 22-4-2000, (2) S.R.O. 67, dated 29-3-2001, (3) S.R.O. 31, dated the 27th February, 2004.

3334 GI/04-2

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2004

का.नि.आ. 163.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान द्वारा कर्नल टी.पी. एस. नेगी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, जम्मू में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/58/जम्मू/सी/डीई/2001/4148/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी.आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th October, 2004

S.R.O. 163.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jammu by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of resignation of Col. T.P.S. Negi.

[File No. 19/58/Jammu/C/DE/2001/4148/D(Q&C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2004

का.नि.आ. 164.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, जम्मू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल कुलदीप सिंह कलेर को छावनी बोर्ड, जम्मू का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल टी.पी.एस. नेगी के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/58/जम्मू/सी/डीई/2001/4148/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी.आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th October, 2004

S.R.O. 164.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Kuldip Singh Kler has been nominated as a member of the Cantonment Board, Jammu by the Station Commander, Jammu in exercise of the powers conferred under clause (e) of the Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. T.P.S. Negi whose resignation has been accepted.

[File No. 19/58/Jammu/C/DE/2001/4148/D(Q&C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2004

का.नि.आ. 165.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल एम.एस. कौण्डर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बबीना में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/16/बबीना/सी/डीई/2001/4302/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी.आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 5th November, 2004

S.R.O. 165.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Babina by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. M.S. Kaunhar.

[File No. 19/16/Babina/C/DE/2001/4302/D(Q&C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2004

का.नि.आ. 166.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बबीना ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल रणबीर सिंह को छावनी बोर्ड, बबीना का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल एम.एस. कौच्छर के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/16/बबीना/सी/डीई/2001/4302/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी.आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 5th November, 2004

S.R.O. 166.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Ranbir Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Babina by the Station Commander, Babina in exercise of the powers conferred under clause (e) of the Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. M.S. Kauchhar whose resignation has been accepted.

[File No. 19/16/Babina/C/DE/2001/4302/D(Q&C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.